



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 114]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938

No. 114]

NEW DELHI, FRIDAY FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 140(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, पशुपालन अधिकारी समूह 'क' पद भर्ती नियम 2007 को जहां तक उनका संबंध सहायक आयुक्त—(पशुपालन) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, में सहायक आयुक्त (पशुपालन) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग सहायक आयुक्त (पशुपालन) समूह 'क' पद भर्ती नियम 2017 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) से विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.—वह व्यक्ति —**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा। | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं। |
|------------------------|--|--|---|-----------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सहायक आयुक्त (पशुपालन) | 11* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर 11 (67700-208700 रु.) | चयन | लागू नहीं होता। | लागू नहीं होता। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो। | भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता। | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तियां/आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्तियां/आमेदन किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना। | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। |
|---|---|--|---|---|--|
| (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| लागू नहीं होता। | सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी से प्रोन्नत हुए व्यक्ति के लिए एक वर्ष। | 80% प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर, प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी हैं।) | प्रोन्नति: — वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56100-177500रु. में) ऐसा पशुधन अधिकारी जिसने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और पशुपालन प्रबंधन में या पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो सप्ताह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो। टिप्पण-1 वेतन मैट्रिक्स में स्तर -7 (44900-142400रु. में) सहायक कुक्कुट | समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग- अध्यक्ष | प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है। टिप्पण: समूह 'ख' सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी के पोषक पद के अकेले पदधारी की प्रोन्नति |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | <p>20% प्रतिनियुक्त द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।)</p> <p>विकास अधिकारी के पद धारित विद्यमान पदधारी जिन्होंने इस ग्रेड में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो, को भी पशुधन अधिकारी के पदधारियों के साथ प्रोन्नति के लिए पात्र समझा जाएगा।</p> <p>टिप्पण-2 जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवापुरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>टिप्पण-3 प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी, 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है: केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कृषि विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान या अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त निकायों या कानूनी संघटनों के अधीन ऐसे अधिकारियों जो:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं: या</p> <p>(ii) मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500रु) के पद में या समतुल्य में मूल काडर या विभाग में नियुक्ति के पश्चात् पांच वर्ष नियमित सेवा की हो: और</p> | <p>(ii) सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग – सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p> <p>(iv) संयुक्त सचिव (पशुपालन) - सदस्य</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी से प्रोन्नत व्यक्ति के पुष्टि के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>(i) सचिव, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग- अध्यक्ष</p> <p>(ii) संयुक्त सचिव (प्रशासन) - सदस्य</p> <p>(iii) संयुक्त सचिव (पशुपालन) - सदस्य</p> <p>टिप्पण: समूह 'ख' सहायक कुक्कुट विकास अधिकारी के पोषक पद में अकेले पदधारी की प्रोन्नति के पश्चात् कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार विभागीय प्रोन्नति समिति में संघ लोक सेवा आयोग का संगम अपेक्षित नहीं होगा। उस दशा में सचिव (पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन) यथा विनिर्दिष्ट दो अन्य सदस्यों के साथ विभागीय प्रोन्नति समिति का</p> | <p>के पश्चात् केवल प्रतिनियुक्ति (जसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा की है) भी दशा में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अपेक्षित होगा।</p> |
|--|--|---|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों:</p> <p>आवश्यक:- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध के रूप में पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में बेचलर डिग्री।</p> <p>(2) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद या राज्य पशु चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रीकरण।</p> <p>(3) गोपशु और पशुधन विकास या कुक्कुट या पशु स्वास्थ्य मांस या मांस उत्पादों में पांच वर्ष का अनुभव हो</p> <p>(4) वांछनीय : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पशुचिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में किसी शाखा में डॉक्टरेट डिग्री।</p> <p>टिप्पण:1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पण:2 प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संस्थान या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) की अवधि है साधारणतः 4 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पावधि संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण:3 प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 01 जनवरी 2016 से पहले या उस तारीख से जिससे सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का</p> | <p>अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार, पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति अपेक्षित नहीं होगी।</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | साधारण मैट्रिक्स में स्तर सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहां यह फायदा केवल उस पद पर विस्तारित होगा जिसके लिए मैट्रिक्स में स्तर बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन मैट्रिक्स है, उक्त वेतन यह आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी मैट्रिक्स में स्तर पर की गई सेवा समझी जाएगी। | | |
|--|--|--|---|--|--|

[फा.स.-ए 12034/2/2013 – प्रशा. I]

डा.ओ.पी.चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th February, 2017.

G.S.R. 140(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Animal Husbandry officers Group 'A' posts Recruitment Rules, 2007 in so far as it relates to the post of Assistant Commissioner (Animal Husbandry), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Commissioner (Animal Husbandry) in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, namely: -

1. (1) These rules may be called the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Assistant Commissioner (Animal Husbandry) Group 'A' posts Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, their classification and level in the pay matrix.** – The number of post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of these provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age- limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| Assistant Commissioner (Animal Husbandry) | 11*(2017) (*Subject to variation dependent on workload.) | General Central Service Group "A" Gazetted Non-Ministerial | Level-11 in the pay matrix (Rs.67700-208700) | Selection | Not applicable | Not applicable |

| Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promote | Period of probation if any | Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods. | In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grades from which promotion or deputation or absorption to be made |
|---|--|---|---|
| (8) | (9) | (10) | (11) |
| Not applicable | One year for promotee from Assistant Poultry Development Officer | 80% by promotion Failing which by deputation (including short-term contract) 20% by deputation (including short term contract.) | <p>Promotion: Livestock Officer in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have successfully completed training of two weeks in the field of Animal Husbandry Management and/or Animal Health. Note 1: The existing incumbent holding the post of Assistant Poultry Development Officer in level-7 (Rs.44900-142400) in the pay matrix with seven years regular service in the grade on the date of notification of these rules shall also be eligible for promotion. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission.</p> <p>Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Governments or Union Territory Administration or Public Sector Undertakings or Universities or Recognised Research Institutions or Semi Government or Autonomous Bodies or Statutory Organizations: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>(ii)with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level-10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:-</p> <p>Essential:</p> <p>(i) Bachelor's Degree in Veterinary Science and Animal Husbandry as listed in the First and Second Schedule of the Indian Veterinary Council Act, 1984 from a recognized university or institute.</p> <p>(ii) Registration in the Veterinary Council of India or Veterinary Council of the State.</p> <p>(iii) possessing five years experience in cattle and livestock development or poultry or animal health or meat or meat products.</p> <p>Desirable :-</p> <p>(i) Doctorate Degree in any branch of Veterinary Science and Animal Husbandry from a recognized University or Institute.</p> <p>Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.</p> <p>Note 2 : Period of deputation (including short term contract) including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.</p> <p>Note 3: For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016, i.e., the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised grade pay or scale of pay into one level with a common level in the pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level in the pay matrix is the normal replacement level without any up-gradation.</p> |
|--|--|--|---|

| | |
|---|---|
| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment |
| (12) | (13) |
| <p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <p>(1) Chairman or Member, Union Public Service Commission</p> <p>- Chairman;</p> | <p>Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>(2) Secretary, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries - Member; (3) Joint Secretary (Administration) - Member; (4) Joint Secretary (Animal Husbandry) - Member.</p> <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee(for considering confirmation of promotes from Assistant Poultry Development Officer)</p> <p>(1)Secretary, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries - Chairman; (2)Joint Secretary (Administration) - Member; (3)Joint Secretary (Animal Husbandry) - Member.</p> <p>Note: After promotion of the lone incumbent in Group "B" feeder post of Assistant Poultry Development Officer, association of Union Public Service Commission in Departmental Promotion Committee shall not be required as per Department of Personnel and Training's guidelines. In that case, Secretary (Animal Husbandry, Dairying and Fisheries) shall be the Chairman of Departmental Promotion Committee with two other members as specified. Similarly, Departmental Promotion Committee for confirmation shall not be required.</p> | <p>NOTE: After promotion of the lone incumbent in the Group 'B' feeder post of Assistant Poultry Development Officer, consultation with Union Public Service Commission shall be required only in case of 'Deputation(including short term contract)</p> |
|---|--|

F.No.A.12034/2/2013-Admn.I
Dr. O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 141(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग की अधिसूचना, तारीख 30 नवम्बर 2015, भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खंड-3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 910 (अ) द्वारा 30 नवम्बर 2015 को प्रकाशित का उन बातों के सिवाय जिन्हे ऐसे विखण्डन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखण्डित करते है।

[फा.स.-ए 12034/2/2013 – प्रशा.।]

डा.ओ.पी.चौधरी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2017.

G.S.R. 141(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby rescinds the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, dated the 30th November 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. number 910 (E), dated the 30th November 2015, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. A. 12034/2/2013-Admn-I]
Dr O.P. CHAUDHARY, Jt. Secy.